

मुद्रा ऋण :

पीएमएमवाई के अंतर्गत हमारे बैंक ने गैर कृषि क्षेत्र के उन सूक्ष्म उद्यमों को वित्तपोषण को विस्तारित किया है जो आय सृजन के प्रयोजन से ग्रामीण, शहरी एवं महानगरों में विनिर्माण, व्यापार, ओर सेवा क्षेत्र के कारोबार में हैं ।

कोई भी व्यक्तिगत/स्वामित्व प्रतिष्ठान/ साझेदारी फर्म/व्यक्तियों का संघ (एओपी)/सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) आदि और वो किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का चूककर्ता न हो; मुद्रा ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्र है ।

मुद्रा ऋण के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं :-

1. शिशु (50,000 रु. तक के ऋण)
2. किशोर (5,00 लाख रु. से 10.00 लाख तक के ऋण)
3. तरुण (5,00 लाख रु. से 10.00 लाख तक के ऋण)

इकाइयों के लिए लागू ब्याज दर आधार दर (वर्तमान में 9.60%) से आधार दर + 2.25% +टीपी (0द्व50%) की सीमा में हैं, जो कि 3 वर्ष और इससे अधिक (समय-समय पर सरकार/आरबीआई के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन होने की स्थिति में) में प्रतिदेय ऋणों पर लागू है।

मुद्रा के अंतर्गत शामिल ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण है । तथापि, बैंक के वित्तपोषण से सृजित सम्पत्तियों पर बैंको की तरफ से प्रभार लगाए जाने हैं ।

मुद्रा ऋणों के अंतर्गत शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन फार्म हमारे कार्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है । आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट इन आवेदन फार्म के साथ संलग्न है । इसके त्वरित संदर्भ के लिए प्रतिकृति निम्नलिखित हैं :-

दस्तावेज सूची : शिशु

1. पहचान का प्रमाण : मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस /पैन कार्ड/आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ सरकारी प्राधिकरण इत्यादि द्वारा जारी पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि ।
2. निवास का प्रमाण - हाल ही का टेलिफोन बिल; बिजली का बिल, सम्पत्ति कर रसीद, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, व्यक्ति/ मालिक/ साझेदार का पासपोर्ट , सहकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र/स्थानीय पंचायत/ नगरपालिका इत्यादि ।
3. आवेदक के नवीनतम फोटोग्राफ (2 प्रतियां) जो 6 माह से अधिक पुराने न हों ।
4. एससी/एसटी/ओबीसी /अल्पसंख्यक का प्रमाण, यदि लागू हो तो ।
5. कारोबार के उद्यम की पहचान / पते का प्रमाण, यदि लागू हो तो ।
6. पिछले 6 माह का वर्तमान बैंकर की तरफ से खाते का विवरण, यदि कोई हो तो ।
7. खरीदे जाने वाली मशीनरी / अन्य वस्तुओं का संविदा भाव ।

दस्तावेज सूची : किशोर एवं तरुण

1. पहचान का प्रमाण : मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस /पैन कार्ड/आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ सरकारी प्राधिकरण इत्यादि द्वारा जारी पहचान पत्र की स्व- सत्यापित प्रतिलिपि ।
2. निवास का प्रमाण - हाल ही का टेलिफोन बिल; बिजली का बिल, सम्पत्ति कर रसीद (दो माह से अधिक पुरानी नहीं), मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, व्यक्ति/ मालिक/ साझेदार का पासपोर्ट , सहकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र/स्थानीय पंचायत/ नगरपालिका इत्यादि ।
3. एससी/एसटी/ओबीसी /अल्पसंख्यक का प्रमाण, यदि लागू हो तो ।
4. कारोबार के उद्यम की पहचान / पते का प्रमाण प्रासंगिक लाइसेंस /पंजीकरण प्रमाणपत्र/लीज या किराए का अनुबंध /स्वामित्व से संबंधित अन्य दस्तावेज , कारोबार इकाई / उद्योग आधार ज्ञापन के पते की पहचान की प्रतिलिपियां
5. पिछले 6 माह का वर्तमान बैंकर की तरफ से खाते का विवरण

6. आयकर बिक्री कर रिटर्न इत्यादि सहित वर्तमान इकाइयों के पिछले दो वर्ष के बिना लेखा परीक्षित तुलनपत्र । (2 लाख रू. या इससे अधिक के ऋणों हेतु लागू)
7. कार्यशील पूंजी की सीमा के मामले में एक वर्ष के लिए और मियादी ऋण (2 लाख रू. और इससे अधिक के लिए लागू) के मामले में ऋण की अवधि हेतु स्टार्ट-अप /वर्तमान इकाइयों के तुलन-पत्र
8. आवेदन के जमा करने की तिथि तक (वर्तमान इकाइयों के मामले में) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई बिक्रियां ।
9. खरीदी जाने वाली सम्पत्तियों के प्रोफार्मा चालान/संविदा दर और नागरिक कार्यों हेतु प्राक्कलन, यदि कोई भी शुरू किया जाना है तो । यदि आवश्यक लगे तो तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक औचित्य का उधारकर्ता के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है ।
10. निवेशकों एवं साझेदारों सहित उधारकर्ता की आस्ति एवं देयता विवरण 1
11. कम्पनी के संघ के जापन और अंतर्विषय /साझेदारों के साझेदारी विलेख, जहां भी लागू हों ।
12. आवेदक /मालिक /साझेदार /निर्देशक की फोटो (2 प्रति) जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो ।

(दस्तावेज सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है तथा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर है; और आवश्यकता के अनुसार जोड़े जा सकते हैं ।)